SHREE WORSTEX LIMITED

Regd. Off.: 325, IIIrd Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, Delhi-110085 Phone: 9315202833, E-mail: shreeworstex@gmail.com Website: www.shreeworstex.in, CIN: L17111DL1982PLC013790

February 04, 2021

To

Department of Corporate Relations	Metropolitan Stock Exchange of India Limited
BSE Limited	(Formerly Known as MCX Stock Exchange Limited)
P. J. Towers,	4th Floor, Vibgyor Towers,
Dalal Street, Fort	Bandra Kurla Complex, Bandra East,
Mumbai-400 001	Mumbai - 400 098
Security Code: 541358	Symbol: SHWL

ISIN: INE926R01012 SCRIP CODE:541358

Sub.: Newspaper advertisement of Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter Ended 31st December, 2020.

Dear Sir/Madam,

With reference to the Regulation 47 and Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are submitting herewith the copies of Unaudited Standalone Financial Results for the quarter ended 31st December, 2020 published in the following Newspapers:

- Financial Express (National Daily Newspaper-English Edition) on Thursday, February 04, 2021 and
- ii. Jansatta (Daily Newspaper Hindi Edition) on Thursday, February 04, 2021.

This is for your information and records.

Thanking You, Yours truly

For Shree Worstex Limited

Kiran Mittal Director

DIN: 00749457

Encl. Copy of Newspaper Advertisement

NEW DELHI

वीन सिन्हा बने सीबीआइ के कार्यवाहक प्रमुख

फरवरी।

ब्युरो जांच अतिरिक्त के वीन सिन्हा को इस जंसी का अगला निदेशक नियुक्त होने हक निदेशक बनाया

काडर के 1998 बैच स अधिकारी सिन्हा नम्मेदारी ऋषि कुमार बधवार को दो साल ल के बाद सेवानिवृत्त दी गई है। मोदी की में कैबिनेट बंधी समिति की बैठक हो यह जिम्मेदारी देने किया गया।

करोड में

की खरीद

3 फरवरी।

ने 83

विदने के लिए

एरोनॉटिक्स

(एचएएल)

बुधवार को

करोड़ रुपए

मंत्रालय के

ने एचएएल

निदेशक एवं

अनुबंध 'एयरो

अवसर पर

राजनाथ सिंह

व्यो में सौंपा।

पर राजनाथ

हा, 'एचएएल

व वायुसेना से

बदेशी एलसीए

रमके 1ए के

का अनुबंध

के

वीएल

माधवन

किया।

मामलों

स्थार

021'

त्के

लड़ाकू

सौदा

USS GLOBAL LIMITED (Formerly known as SURNIDHI INVESTMENT LIMITED)

CIN: L74900DL1993PLC056491 Regd office: 1502, 15th Floor, RG Trade Tower Netaji Subhash Place, Pitam Pura, New Delhi - 110034

Phone: 011-45824477 Website: www.ussgloballtd.com E-mail: surnidhiinvestmentltd@gmail.com Notice of 1/2021 Board Meeting

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, as amended, Notice is hereby given that the 1/2021 Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Saturday, February 13", 2021, at 3:30 P.M. at the Registered office of the Company, inter alia, to consider and take on record the Un - Audited Financial Results of the Company for the Third Quarter and Nine Months

ended December 31st, 2020. The said information is also available on the Company's website at www.ussgloballtd.com and shall also be available on the website of the stock exchange at www.msei.in

By order of the Board, For USS Global Limited (Formerly Known as Surnidhi Investment Limited)

Place: New Delhi

Managing Director DIN: 02366798

Mohit Gupta

क्वाड इस्पात लिमिटेड

(पर्ववर्ती हिन्द इस्पात लिमिटेड के रूप में ज्ञात) पंजीकत कार्यालयः ऑफिस नं. 208. दसरा तल पजाकृत कावालय, आक्रित ने 208, दूसरे पर्थ, प्लॉट नं. ए—1, मधुबन टॉवर, वीर सावरकर ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली—110092 CIN:L27109DL1985PLC021183

CIN:127/109D51985PLC021183 संबी (सुचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 47(1)(ए) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक मंगलवार, 09 फ़रसरी, 2021 को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी जिसमें 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखाएरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार कर उन्हें अनुमोदित किया जाएगा।

किंशत सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.hindispat.com और स्टॉक् एक्सचेंज वेबसाइट www.msei.in पर भी उपलब्ध होगी।

> कृते क्वाड इस्पात लिमिटेड हस्ता / – विनया प्रकाश निर्देशक

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 03.02.2021

अचल इन्वेस्टमेंटस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः ऑफिस नं 208, दूसरा तल, प्लॉट नं ए—1 मधुबन टॉवर, वीर सावरकर ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली—110092 CIN: L65993DL1980PLC010636

एमः १००० अग्नाः १००० विस्त्री स्विधिकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं विनियम, २०१५ के विनियम ४७(१)(क) के अनुसरण में कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक मंगलवार, ०९ फरवरी, २००१ के कपानी के पंजीकृत कार्यात्म में आपनी के पंजीकृत कार्यात्म में आयोजित की जाएगी जिसमें 31 दिसम्बर, २०२० को समाप्त तिमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन किया जाएगा।

कथित सूचना की प्रति कम्पनी की वेबसाइट www.achalinvest.com और स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट www.bsejndia.com पर भी उपलब्ध है।

कृते अचल इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड हस्ता / प्रदीप राम

दिनांक : 03.02.2021 स्थान : नई दिल्ली पर्णकालिक निदेशक नीरज पेपर मार्केटिंग लिमिटेड

सीआईएन : L74899DL1995PLC086194 पंजीकृत कार्यालय : 218-222, अग्रवाल प्रेस्टिज मॉल, प्लॉट सं. २, कम्युनिटी सेंटर, सड़क सं. 44 के साथ पीतमपुरा, दिल्ली-110034

वेबसाइट : www.neerajpaper.com, ई-मेल : mansi@neerajpaper.com, लैण्डलाइन : +91-11-47527700

सुचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 वे विनियम 47 के के साथ पठित विनियम 29 वे अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ 31.12.2020 को समाप्त तिमाही हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामीं पर विचार तथा अनुमोदन करने एवं रिकार्ड पर लेने के लिए कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर शनिवार, 13 फरवरी, 2021 को 2:30 बजे पूर्वा. आयोजित की जायेगी।

इस उददेश्य के लिए इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम आचार संहिता के तहत निदेशक/अधिकारी/निर्दिष्ट कर्मचारियों/प्रोमोटर हेतु ट्रेडिंग विंडो पहले ही जनवरी, 2020 से 16 फरवरी, 2020 तक पत्र दिनांक 31.12.2019 के अनुसार बन्द की जा चुकी है। इस सुचना का विवरण कम्पनी की वेबसाइट यह सचना कम्पनी की वेबसाइट www.neerajpaper.com पर तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट

www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है। कृते नीरज पेपर मार्केटिंग लिमिटेड

(मानसी) कम्पनी सचिव दिनांक : 03.02.2021 स्थान : दिल्ली एवं अनुपालन अधिकारी **FICE AUTOMATION LIMITED**

idharth, 96, Nehru Place, New Delhi - 110019 _C044365, Website : uniofficeautomation.com

ad with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and 1 2015 notice is hereby given that the meeting of the Board uled to be held on Thursday, 11th February, 2021 at 3:30 PM e Company for the quarter ended on December 31, 2020.

website of the Company at www. uniofficeautomation.com k Exchange website at http://www.bseindia.com

rds for Code of Conduct to Regulate, Monitor and Report company, the Company has decided that the trade close would commence from 6:00 PM on 05-02-2021 and end 48 on 11-02-2021.

For Universal Office Automation Ltd Sdl

Naina Luthra **Company Secretary**

RUCTION CO. LTD.

Edelweiss Ideas create, values protec lina. Mumbai - 400 098

परिशिष्ट-II-A

2) के प्रावधान का संदर्भ लें] में की बिक्री हेतु नीलामी सुचना

नयम 6(2) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभृति हित अधिनियम, क प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत चल आस्तियों की बिक्री

से कर्जदार एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत मारित नीचे वर्णित चल सम्पत्तियाँ, जिसका सांकेतिक कब्जा च्च एससी 129. एससी 122. एससी 134. एससी 176. एससी 230 टस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत ईंडेलवीज एसेट तेभत लेनदार के प्राधिकत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है, लिमिटेड तथा जमानतियों अर्थात (1) अर्शिया लिमिटेड, (2) न से प्रतिभत लेनदार के 30 सितम्बर, 2020 तक बकायों रु.

करोड़ बासठ लाख चौंसठ हजार तैंतीस मात्र) तथा भावी ब्याज ए लॉट-I तथा लॉट-II हेतु 08.03.2021 "जहाँ है जैसे है", हीं है'' आधार पर की जायेगी।

नानुसार है :

जमा धरोहर राशि (ईएमडी) फ. 27.06.50.000

ब सहित प्रयोज्य कर शामिल नहीं हैं जो कि क्रेता के खाते के हैं।

लिसी वैगन तथा 9 बीवीसी वैगन हैं

कंटेनर 4 रेक्स में 45 बीएलसी वैगन तथा 1 रेक में 40 बीएलसी वैगन एवं

0 नग एवं 40 फीट कन्टेनर 45 नग

शर्तों हेतु कृपया ईएआरसी की वेबसाइट ropertySale.aspx में प्रावधानित लिंक देखें। सम्पर्क नं. +91 9136987963 पर तथा/अथवा ई-मेल .com / vipul.gupta@edelweissfin.com पर सम्पर्क

> ह./- अधिकृत प्राधिकारी ईडेलवीज एसेट रीकंस्ट्रवशन कम्पनी लिमिटेड

Date: 3rd February, 2021 वीकेजी इन्फ्राडेवलपर्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः बी-32, यू/जी/एफ/बी/एस ऑफिस नं. 1, प्रथम तल, सुभारा चौक, नजदीक डीरा स्वीट्स, विकास मार्ग, लक्ष्मी नगर, विल्ली-110

CIN: L45400DL2010PLC200014

सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताए) विनियम, 2015 के विनियम 47(1)(ए) के अनुसरण में एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक मंगलवार, 09 फरवरी, 2021 को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी जिसमें 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार कर उन्हें अनुमोदित किया जाएगा।

कथित संचना कम्पनी की वेबसाइट www.vkiinfra.com और स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगी।

कृते वीकेजे इन्फ्राडेवलपर्स लिमिटेड हस्ता/-

स्थान : दिल्ली अगस्टीन कच्छप निदेशक दिनांक: 03.02.2021

बी.पी. कैपिटल लिमिटेड सीआईएन : L74899HR1994PLC072042 पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट सं. 345,

एचएसआईआईडीसी, फुटवियर पार्क, सेक्टर-17, बहादुसाढ़, झज्झर, हरियाणा-124507 ई-मेल : bpcapitallimited@gmail.com

दूरभाष : 01276-222501,02, फैक्स : 01276-222501

बोर्ड बैठक की सूचना

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 33 के अनुसार एतहारा सुचना दी जाती है कि अन्य बातों के साथ-साथ 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन के लिए कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक बृहस्पतिवार, 11 फरवरी, 2021 को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर आयोजित की जाएगी।

कथित सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.bpcapital.in तथा बी.एस.ई. की वेबसाइट www.bseindia.com फ उपलब्ध है।

> बोर्ड के आदेशानसा कृते बी.पी. कैपिटल लिमिटेड

रमेश कुमार गुप्त तिथि : 04.01.2021 स्थान : हरियाणा

वस्टेंक्स लिमिटेड

पंजी. कार्याः: 325, Шरा तल, अग्रवाल प्लाजा, सेक्टर-14, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 एम. नं.: 9315202833/ ईमेल आईडी: shreeworstex@gmail.com, info@shreeworstex.in, वेबसाईट: www.shreeeworstex.in CIN: L17111DL1982PLC013790

31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए अनंकेक्षित स्टैण्डएलॉन वित्तीय परिण

क्रम सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 31.12.2020 (अनंकेक्षित)		पूर्व वर्ष ३१.12.2015 में समाप्त कलवानीय ३ महीने अनेकेक्षित (अनेकेक्षित)
1.	परिचालनों से कुल आय	14.09	58.59	73.11
2,	अवधि के लिए गुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	5,13	43.43	(2.76)
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण गर्दों के बाद)	5.13	43.43	(2.76)
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ (हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद)	3.80	34.70	(2.76)
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)		87.27	(9,98)
6.	इक्विटी शेवर पूंजी	314.00	314.00	314.00
7.	आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाई गई पुनर्मृत्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)	64.93	64.93	60.08
8.	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरु द्व प्रचालनों के लिए) (वार्षिकीकृत नहीं)			
	क) मूल:	0.12	1.11	(0.09)
	ख) तरल :	0.12	1.11	(0.09)

1. 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही के अनेकेक्षित वित्तीय परिणामों की ऑडिट कमिटी हारा समीक्षा की गई तथा 2 फरवरी, 2021 को आयों क 31 (दसस्य, 2020 का समान तमाहा क अनकाशत (बावा पारणमा) का आहट कामट होरा समझा था पा गया 2 भवरंग, 2021 का अ उनकी बैठक में समानी के निरक्षित में महत्त हारा अनुमीतित किये गये। इसमी के सोविषक अकेखकों से प्राग तमीसित समीशा गिर्ट के रूप अ दिसम्बर, 2020 को समान तिमाड़ी के स्टैंडएलॉन बिताय परिणामों को सेबी (सृचीयन दाधित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियम

3.9 क.जनुसाः वमा कथा गथा ६। उपमेक्त संबी (स्वीमेता चांसिन्य एयं उद्घादन अमेशा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंजों में दाखित तिमारी अनेकेज विजीय परिणामी के स्वितृत प्रारूप का सार है। निमारी वित्तीय परिणामी का सम्मूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचैंजों को वेबसाईट अर्थात मेट्रीपॉलिटन स्टॉक एक्सचैंज ऑफ इंडिया विमिटेड (www.msei.in), बीएसई लिमिटेड (www.bscindia.com) तथा कम्मजी की वेबसाईट अर्थात् (www.shreeworstex.in) पर उपलब्ध हैं।

निदेशक मंडल के लिये तथा उनकी ओर में श्री वस्टेंक्स लिमिटेड के लिये

किरणं मित्तल (निदेशक

फोटो लिमिटेड

33209UP2004PLC095076]

.मी., हापुड़-बुलन्दशहर रोड, पी.ओ. गुलावथी, न्दशहर, उत्तर प्रदेश-203408

12, सेक्टर बी-1, लोकल शापिंग कॉम्प्लैक्स, कुंज, नई दिल्ली-110070

ई-मेल: cs-iphoto@jindalgroup.com, www.jindalphoto.com

(त) विनियमन, 2015 के प्रावधानों के अनुसार एतद्द्वारा सचित ा की एक बैठक गुरुवार, 11 फरवरी, 2021 को कम्पनी के प्रधान ान्य विषयों के साथ 31.12.2020 को समाप्त तिमाही तथा नौ माही र एवं अनुमोदन तथा ''प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समृह'' श्रेणी से कित अगरवाल तथा मै. आकृति ट्रस्ट के पुनर्वगीकरण के लिये गर किये जाएँगे। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 19 द्वारा उत्पन्न चुनौती के कारण उसके अंतर्गत निर्मित नियमों वाले अन्य कानुनों एंव विनियमनों के अनुपालन में कम्पनी द्वारा ने पर ''स्पष्टीकरण'' के संदर्भ में साधारण सर्क्युलर नं. 14/2020

प्रबन्ध निदेशव

तिथिः 02.02.2021 स्थानः नई दिल्ली

Advertisement under Regulation 18(12) in terms of SEBI (Substantial Acquisition of Shares

MARKETS

FINANCIAL EXPRESS

IND-RA REPORT

profit of ₹90 crore in the October-December quarter of

and 0.4%, respectively, a year ago.

receive exchange. Bank

2019-

20. The

total income of the bank grewbya marginal 1% to ₹789 crore in 03 FY21, against ₹782 crore in the same period of 2.019-20, Ujjivan Small Finance Bank said in a

> ing. Its net interest income was up at ₹432 crore, against

regula-

tory fil-

SHREE WORSTEX LIMITED

Regd. Off: 325, Ill^s Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi - 110085 M.No.: 9315202833 | Email ID: shreeworstex@gmail.com, info@shreeworstex.in

Website: www.shreeeworstex.in | CIN: L17111DL1982PLC013790

Extracts of the Standalone Unaudited Financial Results For the Quarter ended December 31, 2020

61	Particulars	Quarter Ending 31/12/2020 (Unaudited)	Year to date Figures (9 months ended) 01/04/2020 to 31/12/2020 (Unaudited)	3 months ended in the previous year 31/12/2019 (Unaudited)
	Control of the Contro	14.09	58.59	73.11
	Total income from operations Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	5.13	43.43	(2.76)
١.	n. st / /l occ) for the nerion Delute las	5.13	43.43	(2.76)
١.	(after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3.80	34.70	(2.76)
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	(9.72) 314.00	87.27 314.00	(9.98) 314.00
6. 7.	Equity Share Capital Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	64.93	64.93	60.08
8.	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic : 2. Diluted :	0.12		(0.09) (0.09)

Note:

1. The Standalone unaudited Financial Results for the quarter ended December 31, 2020 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on February 02, 2021. The Standalone unaudited Financial Results for the Quarter ended 31" December, 2020 submitted along with Limited Review Report pursuant to the Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 received from the Statutory Auditors

2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange(s) website i.e. Metropolitan Stock Exchange of India Limited (www.msei.in), BSE Limited (www.bseindia.com) and Website of the Company i.e. (www.shreeworstex.in).

For and on behalf of the Board of Directors For Shree Worstex Limited

Kiran Mittal (Director) DIN: 00749457 arket in O4 of next fiscal: DEA secv

	OLICALI	LIDCUI. D.	LITUCE
7,567.11	26,675.74	20,648.02	20,644.58
	1,752.44	1,/ 11.10	1,742.90
			2,97,407.44
	20.46	23.82	23.37
8.40	30.13	25.51	
	7,567.11 1,741.40 8.54 8.40	7,567.11 26,675.74 1,741.40 1,752.44 8.54 30.46	8.54 30.46 23.82 8.40 30.13 23.31

Board at its meeting held on February 02, 2021.

al Results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing nd Nine months ended Financial Results are available on the Stock Exchange websites wealth.com.

ınde	er:			₹ in Lakhs
		Nine mon	Year ended	
020	December 31, 2019	-1.0000	04 0040	March 31, 2020 (Audited)
	(Unaudited) 4,502.72	8,297.80	12,346.71	21,625.87
		39,428.30	22,286.04	27,931.23
;	1,776.55	38,210.42	20,715.77	25,004.76
	1,091.75	38,210.42	(8,502.76)	(8,502.76)
	(1,924.82)	-		(5,657.18)
	(1,353.73)	-	(5,657.17)	19,347.58
-	(261.98)	38,210.42	15,058.60	19,347.30

By order of the Board For IIFL Wealth Management Limited sd/-

Karan Bhagat **Managing Director** DIN: 03247753

New Delhi





Date: 02.02.2021